



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-15012025-260247
CG-DL-W-15012025-260247

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 47] नई दिल्ली, जनवरी 5—जनवरी 11, 2025, शनिवार/पौष 15—पौष 21, 1946
No. 47] NEW DELHI, JANUARY 5—JANUARY 11, 2025, SATURDAY/PAUSHA 15—PAUSHA 21, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 182.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1983 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और करनाल में स्थित सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, उच्च श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने का शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारान है उन्हे लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उच्च श्रेणी लिपिक	176* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4(25500-81100 रुपये)	अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) पञ्चास प्रतिशत अवर श्रेणी लिपिक के प्रोन्नति द्वारा; (ii) पञ्चास प्रतिशत विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर; (iii) उपर्युक्त पद्धतियों में से किसी एक या दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2(19900-63200 रुपये) में से, उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी सेवा अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही कर ली अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी, (क) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हों; (ख) जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक या समतुल्य	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : (1) उप सहायक महानिदेशक(चिकित्सा भण्डार) -अध्यक्ष; (2) डिपो प्रबंधक - सदस्य; (3) सहायक डिपो प्रबंधक/लेखा अधिकारी- सदस्य (4) स्टेशन पर स्थित केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय का कोई बाहरी अधिकारी-सदस्य। टिप्पण : उप सहायक महानिदेशक (चिकित्सा भण्डार) की अनुपस्थिति में विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता डिपो प्रबंधक द्वारा की जाएगी और उस दशा में कार्यवाही को अनुमोदन के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पास भेजा जाएगा।	लागू नहीं होता।

			<p>की श्रेणी में पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	---	--	--

[फा. सं. ए.12018/04/2020- एसटी.1]

लवकेश सहगल, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 19th Decermber, 2024

G.S.R. 182.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Government Medical Store Depots (Group ‘C’ and Group ‘D’ posts) Recruitment Rules, 1983, in so far as they relate to the post of Upper Division Clerks, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk, in the Government Medical Store Depots located at New Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Hyderabad, Guwahati and Karnal under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement .-(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Government Medical Store Depots, Upper Division Clerk (Group ‘C’ Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix .- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc .- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification .- No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Education and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Upper Division Clerk.	*176 (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Non Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	(i) fifty per cent. by promotion of Lower Division Clerks; (ii) fifty per cent on the basis of Departmental qualifying examination; (iii) failing either or both of the above method then by deputation or absorption.	Promotion: Lower Division Clerk in Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade. Note: where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : (1) Deputy Assistant Director General (Medical Store) –Chairman; (2) Depot Manager –Member; (3) Assistant Depot Manager/ Account Officer –Member; (4) An outside officer from the Central Government office located at the Station –Member.	Not applicable.

		<p>eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government,-</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or</p> <p>(b) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent.</p> <p>Note-1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note-2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The Maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Note: In the absence of Deputy Assistant Director General (Medical Store), the Departmental Promotion Committee will be headed by Depot Manager and in that case the proceedings will be sent to Directorate General of Health Services for approval.</p>	
--	--	--	---	--

[F. No. A.12018/04/2020-St.I]

LAVKESH SEHGAL, Under Secy.

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग)

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 183.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजातीय कार्य मंत्रालय में सहायक निदेशक (प्रोग्रामिंग) की भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ. – (1) इन नियमों को 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सहायक निदेशक (प्रोग्रामिंग), भर्ती नियम, 2024' कहा जा सकेगा।

(2) वे अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनसे जुड़े वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ सलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की विधि, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि-भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

4. अयोग्यता – कोई भी व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है जिसका जीवनसाथी जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) के तहत अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहाँ लिखित में कारणों को दर्ज करके और संघलोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, किसी भी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों में से कोई भी बात केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चाहे चयन पद हो अथवा गैर-चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक निदेशक (प्रोग्रामिंग)।	1* (2024) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता हो सकती है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क' 'राजपत्रित', गैर-मंत्रालयी	वेतन स्तर-10 (₹.56100-177500/-).	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती हो अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)।

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)</p> <p>केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों, स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी: -</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-9 (53100-167800/- रुपये) अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद दो वर्ष की सेवा की हो; अथवा</p> <p>(iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 (47600-151100/- रुपये) अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद चार वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री; अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग अथवा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग स्नातक अथवा प्रौद्योगिकी स्नातक; और</p> <p>(ii) इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग अथवा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अथवा सॉफ्टवेयर विकास अथवा डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली अथवा वेब डिजाइनिंग अथवा नेटवर्किंग अथवा कंप्यूटरीकृत सूचना भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली अथवा डाटा सुरक्षा के आयोजन में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>नोट 1: केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	लागू नहीं	यूपीएससी से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 20025/32/2023-एनसीएसटी]

धीरज चन्द्र रे, उप निदेशक

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
(National Commission For Scheduled Tribes)

New Delhi, the 30th December, 2024

G.S.R. 183.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Programming) in the National Commission for Scheduled Tribes, Ministry of Tribal Affairs, namely: -

1. Short title and commencement. — (1) These Rules may be called the National Commission for Scheduled Tribes, Assistant Director (Programming), Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. —The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc. . —The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. —Nothing in these Rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in pay Matrix.	Whether selection post or non selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Director(Programming).	1(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group, A, Gazetted Non Ministerial.	Level-10 (Rs. 56100-177500).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if, any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion or Deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><u>Deputation (including short term contract)</u></p> <p>Officers of the Central Government, State Governments, Union Territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, universities or recognised research institutions: -</p> <p>(A) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) With two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in posts in Level-9 (Rs.53100-167800/-) of Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) With four years service rendered after appointment to the post on a regular basis in posts in Level-8 (Rs.47600-151100/-) of Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>B) Possessing the following qualifications and experience:</p> <p>(i) Masters Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science or Software Engineering from a recognised University or Institute;</p> <p>OR</p> <p>Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Software Engineering or Information Technology or Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) three years experience in electronic data processing or computer programming or software development or data base management system or web designing or networking or organising computerised information storage and retrieval system or data security.</p> <p>Note 1: Period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt or applications.</p>	Not applicable.	Consultation with UPSC is not necessary.

[F. No. 20025/32/2023-NCST]

DHIRAJ CHANDRA RAY, Dy. Director